

Ref. no. : Ethos/Secretarial/2023-24/24

Dated: May 13, 2023

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra,
Mumbai - 400 051

Scrip Code : 543532

Trading symbol : ETHOSLTD

ISIN : INE04TZ01018

Subject : Newspapers clipping - Publication of Annual Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2023

Dear Sir/Ma'am

Greetings from Ethos.

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement extract pertaining to the disclosure of Annual Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2023, approved by the Board of Directors at its meeting held on Friday, May 12, 2023 and published in the following newspapers today i.e. May 13, 2023:-

1. Financial Express – English (Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Delhi, Pune editions)
2. Himachal Times – Hindi {in the Shimla (cover Parwanoo) edition}

We would request you to please take the same in your records and oblige.

Thanking you

Yours truly
For **Ethos Limited**



Anil Kumar
Company Secretary & Compliance Officer
Membership no. F8023

Encl.: as above

— **ETHOS LIMITED** —

Registered Office:
Plot No. 3, Sector III, Parwanoo,
Himachal Pradesh - 173220, India

Corporate Office:
Kamla Centre, S.C.O. 88-89, Sector 8-C,
Chandigarh - 160009, India

Head Office:
Global Gateway Towers A, 1st Floor, MG Road,
Sector 26, Gurugram, Haryana - 122002, India



POLYCAB INDIA LIMITED

Registered office: Unit 4, Plot Number 105, Halol Vadodara Road, Village Narpura, Taluka Halol, Panchmahal, Gujarat-389350
Corporate Office: #29, The Ruby, 21st Floor, Senapati Bapat Marg, Tulsi Pipe Road, Dadar (West), Mumbai-400028
CIN No: L31300GJ1996PLC114183; Tel.: +91 22 67351400; Website: www.polycab.com; E-mail: shares@polycab.com

Extract of audited consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March 2023

(₹ Million, except per share data)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31 Mar 23	31 Dec 22	31 Mar 22	31 Mar 23	31 Mar 22
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	43,751.96	37,548.62	39,868.06	1,42,411.04	1,22,936.84
Net profit for the period before tax	5,730.63	4,809.98	4,300.21	17,072.56	11,158.58
Net profit for the period after tax from continuing operations	4,284.18	3,608.34	3,253.37	12,822.53	8,452.31
Net profit for the period after tax from discontinued operations	-	-	-	-	720.53
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4,218.18	3,741.44	3,234.12	12,856.22	9,172.84
Equity Share Capital (Face value of ₹10/- each)	1,497.65	1,496.51	1,494.43	1,497.65	1,494.43
Reserves as shown in the Audited Balance Sheet				64,813.72	53,942.98
Earnings Per Share (of ₹10/- each) *(for continuing operations)					
a) Basic	28.37	23.89	21.57	84.87	56.04
b) Diluted	28.29	23.82	21.48	84.61	55.80
Earnings Per Share (of ₹10/- each) *(for continuing operations and discontinued operations)					
a) Basic	28.37	23.89	21.57	84.87	60.87
b) Diluted	28.29	23.82	21.47	84.61	60.61

* not annualised for quarters

Notes

- The above consolidated financials results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12 May 2023.
- Additional information of standalone financial results are as follows:

(₹ Million)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31 Mar 23	31 Dec 22	31 Mar 22	31 Mar 23	31 Mar 22
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	43,414.20	37,045.04	39,437.26	1,40,476.53	1,21,884.12
Net profit for the period before tax	5,760.17	4,756.51	4,229.51	16,886.93	12,248.35
Net profit for the period after tax	4,328.43	3,575.98	3,201.97	12,715.87	9,312.72

- The above is an extract of the detailed format of quarterly/yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For full format of the quarterly/ yearly financial results, visit Stock Exchanges website (www.bseindia.com, www.nseindia.com), Company website (www.polycab.com) or scan below QR code.



Place : Mumbai
Date : 12 May 2023

For and on behalf of the Board
Inder T. Jaisinghani
Chairman & Managing Director
DIN : 00309108

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corp. Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Ghaziabad 201010
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com
Tel: 0120-4041400 | Fax: 0120-4041444



EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(₹ in Crs. except earning per share data)

S.No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	4,431.09	4,214.73	16,165.95	13,063.32
2	EBITDA	340.86	277.13	1,068.73	985.76
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	269.16	239.11	863.31	832.32
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	269.16	239.11	863.31	832.32
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	201.82	176.61	641.86	618.98
6	Total Comprehensive income for the period	196.01	178.99	626.21	622.33
7	Equity Share Capital	55.47	50.06	55.47	50.06
8	Other Equity			2,950.14	2,413.95
9	Earnings Per Share (face value of ₹ 2/- not annualised for quarterly figures)				
	Basic:	7.28	6.52	23.15	24.77
	Diluted:	7.21	6.51	23.14	22.33

Notes:

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Income from Operations	3,686.07	3,767.05	14,279.29	11,589.65
Profit Before Tax	203.94	207.84	689.17	662.44
Profit After Tax	151.86	154.68	511.92	494.23

The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website 'www.aplapollo.com'.

Place: Ghaziabad
Date: 12 May, 2023

For APL Apollo Tubes Limited
Sd/-
Sanjay Gupta
Chairman & Managing Director



Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Corporate Identity Number: U67100MH2007PLC174759
Registered Office: Edelweiss House, Off. CST Road, Kalina, Mumbai - 400 098
Tel: +91-22-4088 6090 Fax: +91-22-4183 0780 E-mail: earc.cs@edelweissarc.in
Website: www.edelweissarc.in

Statement of Standalone Financial Results for the Quarter ended March 31, 2023

Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

(₹ in millions except per share data)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	March 31, 2023 (Audited)	March 31, 2022 (Audited)	March 31, 2023 (Audited)	March 31, 2022 (Audited)
1 Total income from Operations	2,558.42	2,234.67	10,006.99	8,992.70
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,235.23	893.26	4,290.53	3,429.63
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,235.23	893.26	4,290.53	3,429.63
4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	925.98	642.55	3,183.93	2,526.72
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	926.42	639.03	3,181.73	2,523.20
6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	2,632.53	2,632.53	2,632.53	2,632.53
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	25,308.75	22,124.02	25,308.75	22,124.02
8 Securities Premium Account	5,777.93	5,777.93	5,777.93	5,777.93
9 Net worth ¹	27,941.28	24,756.55	27,941.28	24,756.55
10 Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	29,168.96	33,273.28	29,168.96	33,273.28
11 Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12 Debt Equity Ratio ²	1.04	1.34	1.04	1.34
13 Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 10/- each) (not annualised for the quarters)				
- Basic	3.52	2.44	12.09	10.52
- Diluted	3.52	2.44	12.09	10.52
14 Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
15 Debenture Redemption Reserve	438.51	630.62	438.51	630.62
16 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ³	0.17	0.45	0.51	1.01
17 Interest Service Coverage Ratio (ISCR) ⁴	2.22	1.78	1.96	1.75

¹Net worth = Share capital + Reserves & Surplus

²Debt-equity Ratio = (Debt securities + Borrowings (other than debt securities)) / Net Worth

³DSCR = Profit before interest and tax / (Interest expense + Principal Repayment in next 12 months)

⁴ISCR = Profit before interest and tax / Interest expense

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the Stock Exchanges in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of quarterly/ annual financial results are available on the websites of the BSE Limited and the Company's website (www.edelweissarc.in).
- For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the Company's website - www.edelweissarc.in.
- The standalone financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2023 are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 11, 2023.
- During the year ended March 31, 2023, post receipt of approval from RBI, Edelweiss Securities Limited ("ESL") transferred 6,89,09,148 equity shares to Edelweiss Securities and Investment Private Limited ("ESIPL"). ESIPL holds 10,51,27,780 equity shares representing 39.934% of total paid up equity share capital of the Company and ESL ceases to be the shareholder of the Company. Post transfer, Edelweiss Securities and Investment Private Limited has become one of the sponsors of the Company.
- The Company operates in a single reportable operating segment of distressed credit business as per the requirement of Ind AS 108 - Operating Segment.
- Figures for the previous period/year have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation.

For and on behalf of the Board of Directors of
Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Sd/-
Rajkumar Bansal
Managing Director and Chief Executive Officer
DIN: 00122506

Mumbai, May 11, 2023.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ETHOS LIMITED

Corporate Identity Number: L52300HP2007PLC030800

Registered Office: Plot No. 3, Sector- III, Parwanoo, Himachal Pradesh -173 220. Telephone: + (91) 1792 232 462/233 402, Website: www.ethoswatches.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Rupees in lakhs unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Year Ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Year Ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)
		1	Total income from operations	21,260.79	80,373.04	16,128.68	21,258.17
2	Net Profit for the period from ordinary activities (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	1,746.60	7,976.60	994.44	1,775.27	8,067.65	1,049.60
3	Net Profit for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	1,746.60	7,976.60	994.44	1,775.27	8,067.65	1,049.60
4	Net Profit for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	1,307.48	5,979.60	779.07	1,328.41	6,029.82	783.88
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit for the period(after tax) and other comprehensive income(after tax)]	1,290.57	5,962.69	769.54	1,310.79	6,012.20	774.14
6	Paid-up equity share capital (Face value in Rs. 10 per share)	2,334.92	2,334.92	1,907.82	2,334.92	2,334.92	1,907.82
7	Reserves (excluding revaluation reserves)	-	-	-	-	-	-
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (not annualized):						
	(a) Basic (Rs.)	5.76	26.34	4.23	5.85	26.56	4.25
	(b) Diluted (Rs.)	5.76	26.34	4.23	5.85	26.56	4.25

Notes:

- The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meetings held on May 12, 2023. The audited financial results for the current quarter and the year have been audited by the Statutory Auditors of the Company. The unmodified audit report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
- The above is the extract of the detailed format of the audited quarterly and yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited quarterly and yearly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nse.india.com and the company's website at www.ethoswatches.com.

For and on behalf of the
Board of Directors of Ethos Limited
Manoj Gupta
Executive Director
(DIN:08700786)

Place: Chandigarh
Date: May 12, 2023

